

SELAQUI INTERNATIONAL SCHOOL
WINTER VACATION ASSIGNMENT 2017-18
CLASS X

HINDI

प्रश्न-1 दिए गए विषयों पर 200 से 250 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए :

क) सूचना क्षेत्र में क्रांति

ख) प्रगति पथ पर भारत

ग) मन के हारे हार है , मन के जीते जीत

(निबंध को आरम्भ, मध्य और अंत- इन तीन भागों में विभाजित करके लिखें | भाषा सरल व मुहावरेदार हो | सुलेख व वर्तनी पर विशेष ध्यान दें) |

प्रश्न-2 पत्र लेखन :

क) संपादक को पत्र, समाज में बढ़ती असुरक्षा हेतु |

ख) नीचे दिए गए समाचार को पढ़कर मन में जो विचार आते हैं , उन्हें अपने मित्र को पत्र के रूप में लिखिए |

मित्र की माता का आकस्मिक निधन हो जाने पर अत्यंत दुःख हुआ | समाचार मिलने पर उस पर विश्वास करना संभव नहीं हो पा रहा है | माँ के चले जाने का अर्थ होता है, शीतल छाया और आँचल से मिलने वाले प्यार का समाप्त हो जाना |

प्रश्न-3 विज्ञापन लेखन

क) चित्रकला प्रदर्शनी के आयोजन हेतु विज्ञापन लेखन कीजिए |

ख) आपकी कंपनी एक नया उत्पाद (PRODUCT) बाज़ार में उतार रही है, उसकी विशेषताएँ बताते हुए विज्ञापन तैयार कीजिए |

प्रश्न-17

कृतिका - दिए गए प्रश्नों के उत्तर 120 से 150 शब्दों में लिखिए |

क) प्रश्न-13 हमारी आज़ादी की लड़ाई में समाज के उपेक्षित माने जाने वाले वर्ग का योगदान भी कम नहीं रहा है | इस कहानी में ऐसे लोगों के योगदान को लेखक ने किस प्रकार उभारा है ?

ख) प्रश्न-14 एही ठैयाँ झुलनी हेरानी हो रामा ! का प्रतीकार्थ समझाइए |

ग) प्रश्न-15 "सत्य है , परन्तु छप नहीं सकता" संपादक का यह कथन मीडिया का वास्तविक चेहरा प्रस्तुत करता है | कैसे ? क्या वर्तमान मीडिया में कुछ परिवर्तन आया है ? 'एही ठैयाँ झुलनी हेरानी हो रामा !' पाठ के आधार पर उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए |

व्याकरण

घ) प्रश्न-16 संज्ञा , सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रियाविशेषण , समुच्चयबोधक , संबंधबोधक और विस्मयादिबोधक के भेद याद कर 1 -1 उदाहरण सहित लिखें |

ङ) रस और उनके स्थाई भाव याद करके लिखें |